

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 1970/वैशाख 16, 1892

No. 171] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 1970/VAISAKHA 16, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रन्थ संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May 1970

S.O. 1695.—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein as published for general information:—

DECLARATION

Bye-election to the House of the People from the 16-Buldana Parliamentary Constituency in Maharashtra State

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Mahajan Yadav Shivram Ward No. 36 of Jalgaon, District Jalgaon has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Rane Shivram Rango.

Place:—Buldana

Date.—28-4-1970.

Sd./- A. P. RAUT,

Returning Officer,

16-Buldana Parliamentary Constituency".

[No. F. 13(3)/70-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

बिचि संत्रालय
(बिधायी विभाग)

अभिलेखना

नई दिल्ली, 6 मई 1970

का० आ० 1695.—नोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा जिसमें निर्दिष्ट चुनाव क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

महाराष्ट्र राज्य में 16-बुलडाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लीट सभा के लिये उप निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्निष्ठ उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री राने शिवराम रांगों की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए श्री महाजन यादव शिवराम वाडे सं० 36, जलगांव, जिला जलगांव सम्यकरूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : —बुलडाना

तारीख : —28-4-1970

(ह०) ए० पी० राउत,
रिटर्निंग आफिसर,

16-बुलडाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र”

[सं० का० 13(3)/70-विधायी-11]
एन० डी० पी० नाम्बुदिरिपाद, संयुक्त सचिव।